



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021

आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1041/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(202)-2021

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-348

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-836/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1- 2017-आदेश-(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

क-अनुसूची एक में-2.5%,-

(i) क्रम संख्या-71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए";
------	------	---

(ii) क्रम संख्या 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को पूर्ति कृत बायो-डीजल";
-------	------	---

- (iv) क्रम-संख्या 187क और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
- (v) क्रम-संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
- (vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
- “(232) पेम्बोलिजुमाब (कीटूडा);
- (vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
- “(3) दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट”;
- ख-अनुसूची दो में-6%,-
- (i) क्रम संख्या 80क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-
- “बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को पूर्ति कृत बायो-डीजल से भिन्न);
- (ii) क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
- (iii) क्रम संख्या 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
- (iv) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“201क	84, 85 या 94	<p>निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके विनिर्माण के लिये पुर्जें-</p> <p>(क) जैव गैस संयंत्र;</p> <p>(ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण;</p> <p>(ग) सौर ऊर्जा जनरेटर;</p> <p>(घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर (डब्ल्यू ओईजी);</p> <p>(ङ) ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों के लिए अपशिष्ट;</p> <p>(च) सौर लालटेन/सौर लैंप;</p> <p>(छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/पौधें;</p> <p>(ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं या पैनलों में बना है।</p> <p>स्पष्टीकरण :-यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल की पूर्ति की जाती है, तो पूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य माल की पूर्तियों और सेवाओं के साथ, जिनमें से एक विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा है में उल्लिखित सारणी के क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [जी0एस0आर0 690 (अ)], के लिए माल की पूर्ति का मूल्य इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त पूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का अवशेष तीस प्रतिशत प्रभारित उक्त कराधेय सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।”;</p>
-------	--------------	--

- (v) क्रम संख्या 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
- (vi) क्रम संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
- ग-अनुसूची तीन में-9%,-
- (i) क्रम संख्या 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स तथा भुना हुआ लौह पाइराइट।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्क और कंसन्ट्रेट्स तथा फेरुजिनस मैंगनीज अयस्क और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री, जिसकी गणना सूखे वजन पर की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26झ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ञ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ट	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ठ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिग्स और स्कैप।";
-------	------	--

(iii) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपर बोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या सेल्युलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के कागज या पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और समान प्रकार की वस्तुएं।";
-------	------	--

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, अभियांत्रिकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या ऐसे प्रयोजनों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, जो मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्रा के समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल है, या होगा; स्टाम्प-युक्त कागज; बैंकनोट; चेक प्रपत्र; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण-पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स से भिन्न)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या आख्यापन वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफाफे या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157ङ	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी प्रकार के मुद्रित कैलेंडर।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सहित अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटोग्राफ, वास्तुविद अभियांत्रिकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या समान प्रकार के प्रयोजनों हेतु योजना और चित्रकारी, कम्प्यूटर की सहायता से पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसकी निविदायें।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्षक 8604 से भिन्न अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे स्व-चालित या गैर-स्वचालित हो (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।
398ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं, लगेज वैन, डाकखाना कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के भाग; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

(vi) क्रम संख्या 447 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ड टिप्प और अन्य पोरस-टिप्प पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और समान होल्डर; पूर्वगामी सामग्री के भाग (कैप और क्लिप सहित) शीर्षक 9609 से भिन्न", रख दी जाएंगी;

घ-अनुसूची चार में-14%,—

(i) क्रम संख्या 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

"12ख	2202	फल पेय रस का कार्बोनेटेड बिबरेज या फल रसयुक्त कार्बोनेटेड बिबरेज।";
------	------	---

2—यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1041 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(202)-2021, dated October 1, 2021 :

No. 1041 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(202)-2021

Dated Lucknow, October 1, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-836/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(06)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification—

(a) in Schedule I—2.5%,—

(i) *after* S. No. 71 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely :-

"71A	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing";
------	------	--

(ii) S. Nos. 138 to 148 and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(iii) *after* S. No. 186 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely :-

"186A	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel";
-------	------	--

(iv) S. No. 187A and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(v) S. No. 234 and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(vi) in List 1, *after* item number 231 and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely:-

"(232) Penbrolizumab (Keytruda)";

(vii) in List 3, *after* item number (B) (2) and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely:-

"(3) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled";

(b) in Schedule II-6%,—

(i) against S. No. 80A, in column (3), *for* the entry, the following entry shall be *substituted*, namely:-

"Bio-diesel (other than bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)";

(ii) S. No. 122 and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(iii) S. Nos. 127 to 132 and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(iv) *after* S. No. 201 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely:-

"201A	84, 85 or 94	<p>Following renewable energy devices and parts for their manufacture:-</p> <p>(a) Bio-gas plant;</p> <p>(b) Solar power based devices;</p> <p>(c) Solar power generator;</p> <p>(d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG);</p> <p>(e) Waste to energy plants/devices;</p> <p>(f) Solar lantern/solar lamp;</p> <p>(g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants;</p> <p>(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels.</p> <p><i>Explanation :-</i>If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification no. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017[G.S.R. 690(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.";</p>
-------	--------------	---

(v) S. Nos. 205A to 205H and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(vi) S. No. 232 and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(c) in Schedule III-9%,-

(i) *after* S. No. 26B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely:-

"26C	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.
26D	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26E	2603	Copper ores and concentrates.
26F	2604	Nickel ores and concentrates.
26G	2605	Cobalt ores and concentrates.
26H	2606	Aluminium ores and concentrates.
26I	2607	Lead ores and concentrates.
26J	2608	Zinc ores and concentrates.
26K	2609	Tin ores and concentrates.
26L	2610	Chromium ores and concentrates.";

(ii) *after* S. No. 101 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely:-

"101A	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics.";
-------	------	--

(iii) *for* S. No. 153A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be *substituted*, namely:-

"153A	4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like.";
-------	------	--

(iv) *after* S. No. 157 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely:-

"157A	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.
157B	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips).
157C	4908	Transfers (decalcomanias).
157D	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
157E	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
157F	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.";

(v) *after* S. No. 398 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely:—

"398A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
398B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotive, Steam locomotives and tenders thereof.
398C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
398D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
398E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
398F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
398G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
398H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.";

(vi) against S. No. 447, in column (3), *for* the entry, the entry "Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing article, other than those of heading 9609.", shall be *substituted*;

(d) in Schedule IV—14%,—

(i) *after* S. No. 12A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be *inserted*, namely:—

"12B	2202	Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice.";
------	------	---

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 368 राजपत्र-2021-(834)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 31 सा० राज्य कर-2021-(835)-500+500=1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।